

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2019 — आषाढ़ 4, शक 1941

पशुधन विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जून 2019

#### अधिसूचना

क. एफ 8-53/35/2019/577 . — “पशुओं में संकामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27)” की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों के तहत जिला-दुर्ग एवं राजनांदगांव में ग्लैंडर्स रोग के उद्भेद के कारण, रोग के बचाव, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के दुर्ग नगर निगम क्षेत्र एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु “नियंत्रित क्षेत्र” घोषित करती है, परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के दुर्ग एवं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है।

No. F 8-53/35/2019/577 . — In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 read with sub-section (1) and (2) of Section 7 of the 'Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009)', the Government of Chhattisgarh hereby declares municipal area of Durg and Rajnandgaon district as “Controlled area” for equine species of animals to prevent, control and eradicate Glanders disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the controlled area.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वाय. पी. दुपारे, उप-सचिव.